



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 15.01.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### पीआरवी गुड वर्क ऑफ़ द डे, यूपी 112 जनपद खीरी

### पीआरवी 2850 द्वारा मानसिक विक्षिप्त युवती को सकुशल घर पहुँचाया गया

जनपद खीरी पीआरवी 2850, थाना कोतवाली सदर को दिनांक 14.01.2021 को एक इवेंट प्राप्त हुआ जिसमें कॉलर रामकेश शुक्ला द्वारा बताया गया कि मां गंगे हॉस्पिटल, बहराइच रोड के पास एक युवती जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं हॉस्पिटल पनगी के बाहर रखे गमलों को तोड़ रही हैं।

उक्त सूचना पर पीआरवी कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंच कर युवती से पूछताछ किया किंतु थोड़ी मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अपना पता नहीं बता पा रही थी। युवती के पास एक झोला मिला जिस पर गांव अमेठी सिकंदराबाद अंकित था। पीआरवीकर्मियों ने उस पते का सहारा लिया जिससे युवती का नाम कोमल पुत्री रविंद्र कुमार निवासी अमेठी सिकंदराबाद थाना नीमगांव ज्ञात हुआ। जिसके उपरांत पीआरवी द्वारा युवती के परिजनों को बुलाकर कोतवाली सदर ले जाकर लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीआरवीकर्मियों द्वारा किए गए इस कार्य की कॉलर, युवती के परिवारजनों व स्थानीय जनता द्वारा सराहना की गई।

#### **पीआरवी स्टाफ:-**

कॉन्स्टेबल हिमांशु सिंह

महिला आरक्षी रीता

होमगार्ड चालक सूरज नारायण त्रिवेदी

## थाना मैलानी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाव व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.01.2021 मु0अ0सं0 17/21 धारा 376 भादवि में वांछित अभियुक्त तनवीर पुत्र वहीदुल निवासी रेशननगर थाना नीमगाव खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**थाना गोला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध समाज विरोधी क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना गोला पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. दिनेश कुमार पुत्र प्रभू नि० भुजौरिया थाना गोला खीरी 2. महेन्द्र पुत्र राम भरोसे नि० मथुरानगर थाना गोला खीरी 3. फारूख पुत्र जब्बार अली नि० मथुरानगर थाना गोला खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6790रु० नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना गोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध समाज विरोधी क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना सिंगाही पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. दीपक पुत्र स्व० सर्वेश 2. छोटे भैया उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र कृष्ण कुमार 3. मुनव्वर पुत्र बदलू नि० गण वार्ड नं० 3 बाड़ियन टोला कस्बा व थाना सिंगाही खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1140रु० नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिंगाही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 146 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना पसगवां	40 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मोहम्मदी	30 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना भीरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मितौली	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना हैदराबाद	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पलिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना मैलानी	06 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	146 लीटर	08 अभियुक्त गिरफ्तार